



इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
IRCON INTERNATIONAL LIMITED



(A Govt. of India Undertaking)
An integrated Engineering and Construction Company

IRCON/CS/STEX/124

8th February 2019

BSE Limited Listing Dept./ Dept of Corporate Services Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai – 400 001 Scrip code / ID : 541956 / IRCON	National Stock Exchange of India Limited Listing Department Exchange Plaza, Plot no. C/I, G Block Bandra –Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai – 400 051 Scrip Code : IRCON
--	--

Sub: Publication of Unaudited Financial Results for the year ended 31st December 2018


Dear Sir/Madam,

Copy of Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended on 31st December, 2018 and Interim Dividend, approved by the Board at its meeting held on 7th February 2019 as published in the newspapers (in English and Hindi) are enclosed herewith for your information and record.

Please take this information on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Ircon International Limited



(Ritu Arora)
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No.: FCS 5270



er bonds

According to the portal, the power supply was the NTPC power plants of Jammu and Kashmir. The company is deliberating the option of offsetting the Uttar Pradesh dues through the takeover of the state's equity in the 1,320 MW Meja power plant. The management also pointed out payment delays were mostly on account of renewable energy, which is a little bit costlier than thermal power.

power supply and the remaining amount from electricity generated from Ramgundam, Simhadri, Talcher and Kudgi power plants.

The NTPC management has recently said dues also rising significantly from the discoms of Uttar Pradesh and Jammu and Kashmir. The company is deliberating the option of offsetting the Uttar Pradesh dues through the takeover of the state's equity in the 1,320 MW Meja power plant. The management also pointed out payment delays were mostly on account of renewable energy, which is a little bit costlier than thermal power.

US approves sale of two missile defence systems for Air India One

LALIT K JHA
Washington, February 7

THE US HAS agreed to sell two state-of-the-art missile defence systems to Air India One for an estimated cost of \$190 million, a move that will enhance the security of planes flying the prime minister and the president.

According to the Pentagon, the sale will support the foreign policy and national security of the US by helping to strengthen the US-Indian strategic relationship.

The Trump administration approved purchase of the two systems known as Large Aircraft Infrared Countermeasures (LAIRCAM) and Self-Protection Suites (SPS) for an estimated cost of \$190 million, the US Defence Security Cooperation Agency (DSCA) said in a notification to the Congress on Wednesday.

The US decision came after the Indian Government recently made request for LAIRCAM SPS, given the high-level threat to the prime minister and the president.

The defence systems, which would bring security of Air India One at par with that of Air Force One, would be installed in two Boeing 777 Head-of-State aircraft, the Pentagon said. The Indian government plans to buy two Bo-

eing 777 from the national carrier Air India for this specific purpose and unlike in the past would not be used for commercial purposes.

The purpose of the LAIRCAM programme is to protect large aircraft from man-portable missiles. Once installed, the LAIRCAM system increases crew-warning time, decreases false alarm rates and automatically counters advanced intermediate range missile systems, according to the Federation of American Scientists.

The missile warning subsystem will use multiple sensors to provide full spatial coverage.

39.17
0,176
xrev-
e cen-
diture
01.10
ore of
and
apital
aving
esti-
ate's
gged
019-
esti-
pen-
con-
it of
pro-
Net
re is
unt.
9-20
crore
e of
ken



IRCON INTERNATIONAL LIMITED

(A Govt. of India Undertaking)

CIN: L45203DL1976GOI008171, E-mail: info@ircon.org, Website: www.ircon.org
Registered Office: C-4, District Centre Saket, New Delhi-110017;
Tel: +91-11-29565666; Fax: +91-11-26522000/26854000



EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2018

Rs. in crores

Particulars	Standalone					
	Quarter ended			Nine Months ended		Year ended
	31 Dec., 2018 (Unaudited)	30 Sept., 2018 (Unaudited)	31 Dec., 2017 (Unaudited)	31 Dec., 2018 (Unaudited)	31 Dec., 2017 (Unaudited)	31 March, 2018 (Audited)
Total income from Operations	1,215.89	962.29	908.59	2,882.31	2,393.49	3,896.39
Net profit before tax	147.48	125.49	159.01	391.59	237.60	533.31
Net profit after tax	102.77	*83.57	112.15	*349.09	171.55	390.86
Total comprehensive income	101.38	79.95	92.60	355.60	195.79	392.24
Equity share capital	94.05	94.05	94.05	94.05	94.05	94.05
Other Equity (Excluding Revaluation Reserve)						3657.90
Earnings Per Share (not annualized)						
(Face Value of ₹10/- each)						
(a) Basic (in ₹)	10.93	8.89	11.36	37.12	17.35	40.01
(b) Diluted (in ₹)	10.93	8.89	11.36	37.12	17.35	40.01

* Net Profit after tax includes Rs. 84.50 crore for Income tax refund for earlier year's Assessments.

Notes:

- The standalone results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2018 have been subjected to limited review by the Statutory Auditors, reviewed by the Audit Committee of the Board and approved by Board of Directors at its meeting held on 7th February 2019. Figures for the quarter ending December 31, 2018 are the balancing figures between year to date figures in respect of the Nine months ended on December 31, 2018 and the published year to date figures upto Half year i.e. September 30, 2018 of the current financial year.
- The above is an extract of the detailed format of the unaudited financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited standalone financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2018 are available on the Stock Exchanges website of BSE (www.bseindia.com/corporates), NSE (www.nseindia.com/corporates) and Company's website at www.ircon.org.
- Interim Dividend of Rs. 10.72 per equity share for the year 2018-19 was approved in 250th BoD held on 7th February 2019.
- Results for the quarter and nine months ended December 31, 2018 are in compliance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as notified by the Ministry of Corporate Affairs.

For and on behalf of Ircan International Limited
Sd/-
S. K. Chaudhary
Chairman & Managing Director
DIN No.: 00515672

Place : New Delhi
Date : 07th February 2019



शीला की टीम में अंदरखाने मचा घमासान

अयज पांडेय
नई दिल्ली, 7 फरवरी।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित की प्रस्तावित नई टीम को लेकर पार्टी में मोर्चाबंदी शुरू हो गई है। लोकसभा के आगामी चुनाव के मद्देनजर दीक्षित की ओर से बनाई गई विभिन्न समितियों को लेकर पार्टी में अंदरखाने घमासान मच गया है। सूबे के कांग्रेसियों के एक वर्ग में नई समितियों में शामिल किए गए नेताओं के नाम को लेकर भारी नाराजगी है। इस नाराजगी को देखते हुए दिल्ली के प्रभारी पीसी चाको ने गुरुवार को सूबे के तीनों कार्यकारी अध्यक्षों के साथ बैठक की। इन समितियों का एलान किसी भी वक्त किए जाने की संभावना है।

सूत्रों की मानें तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला



दीक्षित ने चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष के तौर पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा का नाम प्रस्तावित किया है जबकि पूर्व सांसद परवेज हाशमी को समिति का संयोजक बनाने की सिफारिश की गई है। इसी तरह घोषणापत्र समिति का अध्यक्ष पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर योगानंद शास्त्री को बनाए जाने का

प्रस्ताव है जबकि प्रचार-प्रसार समिति की कमान दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री रमाकांत गोस्वामी को सौंपे जाने का प्रस्ताव है। गोस्वामी के साथ पहले ही प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए जितेंद्र कोचर को चुनाव समिति का संयोजक नियुक्त किए जाने की सिफारिश की गई है जबकि उन्हें प्रचार-प्रचार समिति सहित कुछ अन्य समितियों में भी जिम्मेदारी दिए जाने का प्रस्ताव है।

शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रहे मंगतरात सिंघल ने विभिन्न समितियों के गठन को लेकर पूछने पर कहा कि इन समितियों की सूची बुधवार को ही कांग्रेस मुख्यालय को भेज दी गई थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि नई समितियों का एलान जल्दी हो जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने इन समितियों के लिए नामित नेताओं की लेकर कुछ भी बताने से इनकार किया।

ली गई
सज्जित
चलाने
सीजन
ह्रा कि
सुलेस
दिखाई
के लिए
में इस
लवर

दी और
और
शुद्धकल
इस
जुरी के
रुपए

2 सी
सिंधू
945 की
ma.in

hat
2019

ween
y of
019 at
tion
D p.m.)
td.
bad.

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

CIN: L45203DL1976GOI008171, ई-मेल: info@ircon.org, वेबसाइट: www.ircon.org
रजिस्टर्ड कार्यालय: सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर साकेंत, नई दिल्ली-110017;
फोन: +91-11-29565666; फैक्स: +91-11-26522000/26854000

31 दिसंबर 2018 को समाप्त तिमाही और नौ माह के लिए अनअंकेक्षित वित्तीय परिणाम का सार

विषय	स्टैंडअलोन					
	समाप्त तिमाही		समाप्त नौ माह		समाप्त वर्ष	
	31 दिसंबर 2018 (अनअंकेक्षित)	30 सितम्बर 2018 (अनअंकेक्षित)	31 दिसंबर 2017 (अनअंकेक्षित)	31 दिसंबर 2018 (अनअंकेक्षित)	31 दिसंबर 2017 (अनअंकेक्षित)	31 मार्च 2018 (अंकेक्षित)
संचालन से कुल आय	1,215.89	962.29	908.59	2,882.31	2,393.49	3,896.39
कर पूर्व शुद्ध लाभ	147.48	125.49	159.01	391.59	237.60	533.31
कर पश्चात् शुद्ध लाभ	102.77	*83.57	112.15	*349.09	171.55	390.86
कुल व्यापक आय	101.38	79.95	92.60	355.60	195.79	392.24
इक्विटी शेयर पूंजी	94.05	94.05	94.05	94.05	94.05	94.05
अन्य इक्विटी (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व के अतिरिक्त)						3657.90
आय प्रति शेयर (एन्युअलाइज्ड नहीं)						
(प्रत्यक्ष मूल्य ₹10/- प्रत्येक)						
(अ) मौलिक (₹)	10.93	8.89	11.36	37.12	17.35	40.01
(ब) डाइल्यूटेड (₹)	10.93	8.89	11.36	37.12	17.35	40.01

* कर पश्चात् शुद्ध लाभ में पिछले वर्षों के आकलन के लिए रिफंड के ₹. 84.50 करोड़ शामिल हैं।
नोट:

- 31 दिसंबर 2018 को समाप्त हुए कंपनी के स्टैंडअलोन तिमाही एवं नौ माह परिणाम कैथानिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन किया गया, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई और 07 फरवरी 2019 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाली तिमाही के आंकड़े, 31 दिसंबर 2018 को समाप्त हुए नौ महीनों के संबंध में वर्ष की तारीख के आंकड़ों के बीच शेष के आंकड़े हैं और वर्तमान वर्ष के छमाही यानी 30 सितंबर 2018 तक के आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं।
- उपरोक्त निष्कर्ष अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप से है जिसे सेबी (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दायर किया गया है। 31 दिसंबर 2018 को समाप्त तिमाही और नौ माह के अनअंकेक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप बीएसई (www.bseindia.com/corporates) एनएसई (www.nseindia.com/corporates) के स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट और कंपनी की वेबसाइट www.ircon.org पर उपलब्ध है।
- वर्ष 2018-19 के लिए ₹. 10.72 प्रति इक्विटी शेयर का अंतरिम लाभांश को 7 फरवरी 2019 को आयोजित 250 वीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मंजूरी दी गई थी।
- 31 दिसंबर 2018 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों के लिए परिणाम कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (Ind AS) के अनुरूप है।

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के लिए एवं ओर से
हस्ता/—
एस. के. चौधरी
चेयरमैन व प्रबंध निदेशक
डीन नं. 00515672

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07 फरवरी, 2019

कोर्पोरेशन लिमिटेड

SPARK MINDA

ASHOK MINDA GROUP
Powered by Passion

MOBILITY. CONNECTIVITY. GROWTH

Mint, Friday, February 8, 2019



IRCON INTERNATIONAL LIMITED

(A Govt. of India Undertaking)

CIN: L45203DL1976GOI008171, E-mail: info@ircon.org; Website: www.ircon.org

Registered Office: C-4, District Centre Saket, New Delhi-110017;

Tel: +91-11-29565666; Fax: +91-11-26522000/26854000



EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2018

Rs. in crores

Particulars	Standalone					
	Quarter ended		Nine Months ended			
	31 Dec., 2018 (Unaudited)	30 Sept., 2018 (Unaudited)	31 Dec., 2017 (Unaudited)	31 Dec., 2018 (Unaudited)	31 Dec., 2017 (Unaudited)	Year ended 31 March, 2018 (Audited)
Total income from Operations	1,215.89	962.29	908.59	2,882.31	2,393.49	3,896.39
Net profit before tax	147.48	125.49	159.01	391.59	237.60	533.31
Net profit after tax	102.77	*83.57	112.15	*349.09	171.55	390.86
Total comprehensive income	101.38	79.95	92.60	355.60	195.79	392.24
Equity share capital	94.05	94.05	94.05	94.05	94.05	94.05
Other Equity (Excluding Revaluation Reserve)						3657.90
Earnings Per Share (not annualized)						
(Face Value of ₹10/- each)						
(a) Basic (in ₹)	10.93	8.89	11.36	37.12	17.35	40.01
(b) Diluted (in ₹)	10.93	8.89	11.36	37.12	17.35	40.01

* Net Profit after tax includes Rs. 84.50 crore for Income tax refund for earlier year's Assessments.

Notes:

- The standalone results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2018 have been subjected to limited review by the Statutory Auditors, reviewed by the Audit Committee of the Board and approved by Board of Directors at its meeting held on 7th February 2019. Figures for the quarter ending December 31, 2018 are the balancing figures between year to date figures in respect of the Nine months ended on December 31, 2018 and the published year to date figures upto Half year i.e. September 30, 2018 of the current financial year.
- The above is an extract of the detailed format of the unaudited financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited standalone financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2018 are available on the Stock Exchanges website of BSE (www.bseindia.com/corporates), NSE (www.nseindia.com/corporates) and Company's website at www.ircon.org.
- Interim Dividend of Rs. 10.72 per equity share for the year 2018-19 was approved in 250th BoD held on 7th February 2019.
- Results for the quarter and nine months ended December 31, 2018 are in compliance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as notified by the Ministry of Corporate Affairs.

For and on behalf of Ircon International Limited

Sd/-

S. K. Chaudhary

Chairman & Managing Director

DIN No.: 00515672

Place : New Delhi

Date : 07th February 2019

Noida New Okhla Industrial Development Authority
Administrative Building, Sector-6, Noida - 201301 (U.P.)
Website : www.noidaauthorityonline.com

E- TENDER NOTICE

E-Tenders are invited from eligible firms/contractors for the following jobs against which bids can be uploaded and same shall be opened/downloaded as per schedule mentioned. The details and conditions of all tenders are available on Noida Authority's official website: www.noidaauthorityonline.com & <https://etender.up.nic.in>. Please ensure to see these websites for any changes/ amendments & corrigendum etc.

1. 51/SM(Jal)-II/ET/18-19, Shifting of Water/Sewer line (Shifting of Water / Sewer line in the alignment of Underpass Near sec-51, 52, 71 & 72 crossing), Noida. Cost - Rs. 232.09 Lacs.

Which can be uploaded by date 18/02/2019 upto 5.00 PM. Pre-qualification shall be opened/downloaded on date 19/02/2019 at 11.00 AM.

R.K. Goyal

Office: - Sector - 37, Noida Senior Manager (Jal)-II, Noida

CLEAN, GREEN, SAFE & SECURE NOIDA

DELHI METRO RAIL CORPORATION LTD.

(A Joint Venture of Govt. of India and Govt. of NCT Delhi)

NOTIFICATION REGARDING TENDERS OF DMRC

All Tender Enquiries/Notice inviting Tenders (NITs) of DMRC are not being published in Newspapers. All concerned are notified that NIT and Tender Documents of all Works/Services and Store Supply Tenders of DMRC are available at Central Public Procurement Portal website <https://eprocure.gov.in> and Indian Railway E-Procurement System (IREPS) website www.ireps.gov.in respectively. In addition to above, NIT for all Tenders of DMRC are also published at DMRC website www.delhimetrorail.com

Chief General Manager/Contracts

Advertisement No.: DMRC/826/2019



नालन्दा खुला विश्वविद्यालय

तीसरा तल, विस्कोमान भवन, गांधी मैदान, पटना-800 001

Tender Notice No. : 01/2019

(INVITING TENDER FOR UNIVERSITY AUTOMATION SYSTEM SOFTWARE)

Sealed tenders are invited from reputed Firms/Companies having GST, Ser Registration, PAN Number and other criteria as mentioned in our RFP document for installation and operational of "University Automation System Software University Management Information System (UMIS).

Important dates & information related to tender of University Automation Software is given in the RFP which may be downloaded from website www.nalandaopenuniversity.com or collected from the Headquarter of Nalanda University, 3rd Floor, Biscamaun Bhawan, Patna-800001 between 10.30 am to Last date for submission of tender is 28.02.2019 till 4.00 pm. The Tenders be kept at 3rd Floor, Biscamaun Bhawan, Patna-800001.

The technical bid will be opened on 28.02.2019 at 5.00 pm in presence of their authorized representatives. The financial bid will be opened on 08.03.2019 at in presence of qualified tenderers.

Hindustan Times, Friday, February 8, 2019

appoint a service provider on a CSR basis for providing Nutrition service to the elite sports persons under going competitive and scientific training at the SAI Stadia in Delhi for achieving excellence at International and National level specially at the Olympics, Asian Games and Commonwealth Games.

The detail RFP is available on CPP Portal, MYAS website & SAI website. The last date of submission of bid is **21.02.2019 at 1100 hrs.**

dvap 47103/11/0016/1819

(S.S. Chhabra)
Secretary, SAI

New Delhi
February 08, 2019

Regional Director



THE BIHAR STATE CO-OPERATIVE BANK LTD.

ASHOK RAJPATH, PATNA-800 004

Ph. 0612-3298351, 3258350, 3298024, EPBX, 2300364, 2300324

Fax : 2300262, 2300662 Telegram: "APEXCOBANK" PATNA

Notice Inviting RFP for Appointment of IT Consultant for CBS and IT Projects

Sealed Tenders are invited under two-bid system from reputed IT Consultants/ IT Consulting Firms for Appointment of IT Consultant for CBS and IT Projects as mentioned in the RFP. Details regarding scope of work, eligibility criteria, bidding process etc, can be found in the bidding document, which can be downloaded from BSCB website (<http://biharbank.bih.nic.in/>). Bidding documents can also be purchased from the office of BSCB on payment of Rs. 1,000.00 (Rupees One Thousand only) as RFP document fee. In case of downloaded RFP documents, RFP document fee shall be submitted along with the bid.

Last date for receipt of Tender is **25/02/2019 (till 03:00 PM)** through registered/speed post/ courier/by hand. Bids will be opened on **same day at 04.00 PM** at The Bihar State Co-operative Bank Ltd, Head Office, Patna. Right to accept or cancel the bid will be reserved with the Bank.

Managing Director

DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION & INDUSTRIAL TRAINING, PUNJAB

Appointment to The Post of Vice Chancellor of Maharaja Ranjit Singh Punjab Technical University, Bathinda
(Set up under the Maharaja Ranjit Singh Punjab Technical University Act, 2014)

- Applications are invited for appointment to the post of Vice-Chancellor, Maharaja Ranjit Singh Punjab Technical University, Bathinda. The candidate must fulfill the eligibility conditions as per the guidelines of the University Grants Commission.
- The Maximum age of applicant must not be more than 67 years as on the last date of submitting the application.
- Signed applications on plain paper along with detailed bio-data and a latest passport size photographs should be sent to the office of Director, Technical Education & Industrial Training, Punjab, Room No. 103, 1st Floor Plot No. 1, Sector 36-A, Chandigarh-160036.
- That last date for receipt of applications is 28.02.2019 upto 5.00 p.m.
- For qualification details, visit the department website at www.dtepunjab.gov.in

Sd/-
Director
Department of Technical Education & Industrial Training, Punjab, Chandigarh

D-3958

IRCON INTERNATIONAL LIMITED

(A Govt. of India Undertaking)

CIN: L45203DL1976GOI008171, E-mail: info@ircon.org; Website: www.ircon.org

Registered Office: C-4, District Centre Saket, New Delhi-110017;

Tel: +91-11-29565666; Fax: +91-11-26522000/26854000

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2018

Particulars	Rs. in crores					
	Standalone					
	Quarter ended		Nine Months ended		Year ended	
	31 Dec., 2018 (Unaudited)	30 Sept., 2018 (Unaudited)	31 Dec., 2017 (Unaudited)	31 Dec., 2018 (Unaudited)	31 Dec., 2017 (Unaudited)	31 March, 2018 (Audited)
Total income from Operations	1,215.89	962.29	908.59	2,882.31	2,393.49	3,896.39
Net profit before tax	147.48	125.49	159.01	391.59	237.60	533.31
Net profit after tax	102.77	*83.57	112.15	*349.09	171.55	390.86
Total comprehensive income	101.38	79.95	92.60	355.60	195.79	392.24
Equity share capital	94.05	94.05	94.05	94.05	94.05	94.05
Other Equity (Excluding Revaluation Reserve)						3657.90
Earnings Per Share (not annualized) (Face Value of ₹10/- each)						
(a) Basic (in ₹)	10.93	8.89	11.36	37.12	17.35	40.01
(b) Diluted (in ₹)	10.93	8.89	11.36	37.12	17.35	40.01

* Net Profit after tax includes Rs. 84.50 crore for Income tax refund for earlier year's Assessments.

Notes:

- The standalone results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2018 have been subjected to limited review by the Statutory Auditors, reviewed by the Audit Committee of the Board and approved by Board of Directors at its meeting held on 7th February 2019. Figures for the quarter ending December 31, 2018 are the balancing figures between year to date figures in respect of the Nine months ended on December 31, 2018 and the published year to date figures upto Half year i.e. September 30, 2018 of the current financial year.
- The above is an extract of the detailed format of the unaudited financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited standalone financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2018 are available on the Stock Exchanges website of BSE (www.bseindia.com/corporates), NSE (www.nseindia.com/corporates) and Company's website at www.ircon.org.
- Interim Dividend of Rs. 10.72 per equity share for the year 2018-19 was approved in 250th BoD held on 7th February 2019.
- Results for the quarter and nine months ended December 31, 2018 are in compliance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as notified by the Ministry of Corporate Affairs.

For and on behalf of Ircan International Limited
Sd/-

S. K. Chaudhary

Chairman & Managing Director

DIN No.: 00515672

Place : New Delhi

Date : 07th February 2019

